



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250101
CG-DL-E-17112023-250101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945

No. 661]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 844(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण ("राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह" के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- "राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह" के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में केवल पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर उपरोक्त मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “75” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे भवन का चित्र होगा। सिक्के के ऊपरी परिधि पर वृत्ताकार में देवनागरी में “राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला” उत्कीर्ण होगा तथा सिक्के के निचली परिधि पर अंग्रेजी में “NATIONAL DEFENCE ACADEMY, KHADAKWASLA” उत्कीर्ण होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भवन की छवि के नीचे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के ‘75 गौरवशाली वर्ष’ का स्मृति चिन्ह अंकित किया जाएगा। इस लोगो के बाईं ओर वर्ष “1949” और दाईं ओर वर्ष “2024” अंकित होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/24/2023 - सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2023

G.S.R. 844(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of National Defence Academy, Khadakwasla, Pune) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of Seventy Five Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of National Defence Academy, Khadakwasla, Pune.

3. **Dimension and composition of coin.**— The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper -40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of the denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate the occasion of Platinum Jubilee Celebration of National Defence Academy, Khadakwasla, Pune and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “75” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of the National Defence Academy, Khadakwasla, Pune building at the center. On the upper periphery of the coin, the inscription “राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला” shall be written in Devnagari script and the inscription “NATIONAL DEFENCE ACADEMY, Khadakwasla” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. Below the image of the National Defence Academy building, the logo commemorating '75 Glorious Years' of the National Defence Academy shall be inscribed. To the left of this logo, the year “1949” and to the right, the year “2024” shall be inscribed.

THE SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy Five Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/24/2023-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser